

# SIL Investments Limited

CIN No.-L17301RJ1934PLC002761

Registered Office : Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan)

Tel.: (07433) 222082; Fax: (07433) 222916; Mob.: 0976948106

E-mail : investor.grievances@silinvestments.in; Website : www.silinvestments.in

---

05<sup>th</sup> February, 2026

<b>BSE Ltd.</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001. <b>Scrip Code: 521194</b>	<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. <b>Scrip Code : SILINV</b>
--	---

Dear Sirs / Madam,

## **Subject: Financial Results - Newspaper Publication**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper notice published in Business Standard (English - All edition) and Rajasthan Patrika (Hindi Daily - Jhalawar edition) with regard to financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2025.

This is for the information of the members and exchanges.

Thanking you

Yours faithfully

For **SIL Investments Limited**

Lokesh Gandhi

Company Secretary and Compliance officer

Encl.: a/a



ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

CIN - L85110KA1995PLC017003

Regd. Office : Village - Hulugunda, Taluka - Somawarpet,  
Dist - Kodagu, Karnataka - 571233

Phone No. 08276-277040 ; Fax No. 08276-277012

E-mail : [secretarial@edcgroup.com](mailto:secretarial@edcgroup.com) ; Website : [www.edcgroup.com](http://www.edcgroup.com)

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 13<sup>th</sup> day of February, 2026, inter-alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31<sup>st</sup> December, 2025.

The Trading Window for dealing in the shares of the Company has been closed for all Designated Employees and their Immediate Relatives, Directors & Promoters from 1<sup>st</sup> January, 2026.

This information is also available on the website of the Company [www.edcgroup.com](http://www.edcgroup.com) and Stock Exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

By Order of the Board  
for Energy Development Company Limited

Sd/-  
SNEHA NAREDI  
(Company Secretary)

Place : Kolkata

Date : 04<sup>th</sup> February, 2026

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

REGISTERED OFFICE: Block no. A/1003, West Gate, Near YMCA Club, Sur No. 835/1+3, S. G. Highway, Makarba, Ahmedabad-380051 Gujarat


CORPORATE OFFICE: 1st Floor, Wakefield House, Spurt Road, Ballard Estate, Mumbai-400038

EMAIL: [chetan.rajpurohit@cfmarc.in](mailto:chetan.rajpurohit@cfmarc.in)

CONTACT: 079-66118554 & 079-6611855 MOBILE: 9892816471

EMAIL: [madhav.vyas@cfmarc.in](mailto:madhav.vyas@cfmarc.in)

CONTACT: 079-66118554 & 079-6611855, MOBILE: 7600526261



thoughtful regeneration

CIN: U67100GJ2015PTC083994

APPENDIX- IV-A

[See proviso to rule 6 (6) ]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002.

CFM Asset Reconstruction Private Limited ("CFM-ARC") (acting in its capacity as Trustee of CFM-ARC Trust - 117) have acquired the entire outstanding debt along with underlying securities of M. Mustakim M. Shaikh (Borrower) & Isratun Nisha Mohd. Mustakim shaikh (Co-Borrower) under section 5 of the said Act vide Registered Assignment Agreement dated 02.05.2023 and by virtue of the said Assignment Agreement, Nido Home Finance Limited (Formerly Known as Edelweiss Housing Finance Limited) assigned all the rights, title and interests along with underlying securities and guarantees in favor of CFM-ARC.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Co-Borrowers that the below described immovable properties (Secured Assets) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of CFM-ARC on 09.11.2022 will be sold on "As is where is basis", "As is what is basis", and "Whatever there is basis", and "No recourse basis" on 24 February 2026 for recovery of Rs.14,81,973.89/- (Rupees Fourteen Lakhs Eighty One Thousand Nine Hundred Seventy Three and Eighty Nine Only) as on 06.10.2021 together with further interest, other costs & expenses thereon minus recovery, if any due to the secured creditors from M. Mustakim m. Shaikh (Borrower) & Isratun Nisha Mohd. Mustakim Shaikh (Co-Borrower).

DESCRIPTION OF SECURED PROPERTY:	All That Piece And Parcel Of Property Bearing Flat No.005, On Ground Floor, Wing No.A, In The Building Named As "Bairaja Apartment" Situated On Land Bearing Survey No.1, Hissa No.6, Chinchpada, Tal. Ambarnath, Dist. Thane, M.S And Within The Grampanchayat Limits Of Chinchpada Grampanchayat, Taluka Ambarnath And Sub-Registration Ulhasnagar-3, Dist. Thane, Admeasuring 600 Sq.Ft. (Built-Up) Area. The Said Flat is Bounded As:East: Shri. Shanivar Sitaram Mhatre, West: Smt. Sitabai Vitthal Mhatre, North: Shri. Narayan Mhatre, South: Shri. Dada Mhatre.
SECURED DEBT:	Rs.14,81,973.89/- (Rupees Fourteen Lakhs Eighty One Thousand Nine Hundred Seventy Three and Eighty Nine Only) as on 06.10.2021 and together with further other costs & expenses thereon minus recovery if any, due and payable till the final payment.
RESERVE PRICE (RP):	Rs.14,94,000/- (Rupees Fourteen Lakh Ninety Four Thousand Only)
EMD:	Rs.1,49,400/- (Rupees One Lakh Forty Nine Thousand Four Hundred Only).
TIME: DATE:	Time: 11.00 AM to 12.00 PM Date: 24.02.2026
PLACE: (For E-AUCTION)	E-Auction/Bidding through website ( <a href="https://www.bankeauctions.com">https://www.bankeauctions.com</a> )
INSPECTION	With prior consultation of Authorised Officer
LAST DATE AND TIME FOR BID SUBMISSION:	On or before 5:00 PM on 23.02.2026
CONTACT:	Dr. Chetan Rajpurohit – 9892816471 Email: <a href="mailto:chetan.rajpurohit@cfmarc.in">chetan.rajpurohit@cfmarc.in</a>

Encumbrances if any: Not known to the secured creditor

For detailed terms & conditions of the sale through e auction, please refer to the link provided in Secured Creditors website i.e. <https://www.cfmarc.in> before submitting bids for taking part in the e-auction.

Bidders may also visit the website <https://www.bankeauctions.com> or contact service provider M/s. C1 India Private Limited. Bidder Support Nos.: 0124-4302020 / 21 / 22, +91 7291981124 / 1125 / 1126; email: [support@bankeauctions.com](mailto:support@bankeauctions.com), Mr. Bhavik Pandya, Contact No. +91 8866682937; Maharashtra@c1india.com

The notice dated 15.12.2025 has been given to all of you under section 13(8) of the SARFEESEI Act, 2002.

Date: 05.02.2026

Place: MUMBAI

Sd/- Authorised Officer  
CFM Asset Reconstruction Private Limited  
Acting as trustee of CFMARC Trust – 117

Arcchean Chemical Industries Limited													
CIN: L24298TN2009PLC072270													
Regd Office: No.2, North Crescent Road, T Nagar, Chennai - 600 017													
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2025													
(Amount Rs. In Lakhs Except E.P.S)													
Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended December 31, 2025	Quarter ended September 30, 2025	Quarter ended December 31, 2024	Nine months ended December 31, 2025	Nine months ended December 31, 2024	Year ended March 31, 2025	Quarter ended December 31, 2025	Quarter ended September 30, 2025	Quarter ended December 31, 2024	Nine months ended December 31, 2025	Nine months ended December 31, 2024	Year ended March 31, 2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	26,081.10	23,178.14	25,466.49	78,404.47	73,011.16	1,06,344.54	26,151.81	23,956.17	25,114.77	80,166.86	72,491.84	1,07,830.09
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,574.61	5,110.12	7,548.35	16,836.02	21,036.72	28,994.95	3,332.83	3,990.68	6,574.97	13,124.04	18,927.65	26,394.96
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,574.61	5,110.12	7,548.35	16,836.02	17,018.45	24,976.68	3,332.83	3,990.68	6,574.97	13,124.04	14,909.38	22,376.69
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,430.01	3,846.27	5,628.69	12,461.13	12,661.60	18,492.34	2,399.82	2,903.88	4,782.28	9,318.00	10,839.95	16,214.49
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,417.02	3,835.44	5,630.17	12,438.98	12,651.91	18,476.48	2,386.83	2,894.53	4,783.76	9,297.33	10,830.26	16,198.63
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)	2,469.16	2,468.55	2,468.55	2,469.16	2,468.55	2,468.55	2,469.16	2,468.55	2,468.55	2,469.16	2,468.55	2,468.55
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						1,85,545.65						1,83,932.77
8.	Earnings per Share (of ₹ 2/- each) (not annualised)												
	Basic	2.78	3.12	4.56	10.10	10.26	14.98	1.92	2.36	3.89	7.53	8.79	13.13
	Diluted	2.78	3.11	4.56	10.09	10.25	14.97	1.92	2.36	3.88	7.53	8.79	13.12


Notes :

1) The Standalone and Consolidated financial results for the Quarter & Nine months ended December 31,2025 have been reviewed by the Audit Committee, approved by the Board of Directors in the meeting held on February 04, 2026.

2) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the Quarter & Nine months ended December 31,2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015, as amended from time to time. The full format of financial results for the Nine months ended December 31,2025 are available on the Stock Exchanges websites ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's Website([www.arccheanchemicals.com](http://www.arccheanchemicals.com)).

Place : Chennai

Date : February 04, 2026



For and on behalf of the Board of Directors of  
Arcchean Chemical Industries Limited

Rampraveen Swaminathan  
Managing Director  
DIN : 01300682



GREENPLY INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 'Madgul Lounge', 6th Floor, 23 Chetla Central Road, Kolkata - 700 027

Corporate Identification Number: L20211WB1990PLC268743

Phone: (033) 3051-5000, E-mail: [Investors@greenply.com](mailto:Investors@greenply.com), Website: [www.greenply.com](http://www.greenply.com)

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE  
QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The Board of Directors of Greenply Industries Limited (“the Company”) at its meeting held on February 4, 2026 has approved the un-audited standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.


The aforementioned financial results along with the limited review reports of the Statutory Auditors have been posted on the Company’s website at <https://www.greenply.com/investors> and can be accessed by scanning the QR code.

By Order of the Board  
For GREENPLY INDUSTRIES LIMITED

Sd/-  
Rajesh Mittal  
Chairman cum Managing Director  
[DIN: 00240900]

Date : February 4, 2026

Place : Kolkata




Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

## Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — every day with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email [order@bmail.in](mailto:order@bmail.in)



Business Standard  
Insight Out



CIN: L25209UP1971PLC003444

Regd. Office - D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur - 208 022 TEL: +91 (0512) 2691113 – 6;

FAX: +91 (0512) 2691117;

Email: [secretary@kanplas.com](mailto:secretary@kanplas.com) ; Web: [www.kanplas.com](http://www.kanplas.com)

Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MRSD-P0D1/3750/2026 dated January 30, 2026, the Company is pleased to inform that SEBI has opened a one-time Special Window for transfer and dematerialisation of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019. The Special Window shall remain open from February 05, 2026 to February 04, 2027 and shall also be available for cases where transfer requests were submitted prior to April 01, 2019 but could not be processed or were rejected or returned due to deficiency in documents or for any other reason, subject to fulfillment of the conditions prescribed under the said SEBI Circular. The securities so transferred shall be credited to the transferee only in dematerialised form and shall be subject to a lock-in period of one (1) year from the date of registration of transfer, in accordance with the SEBI Circular. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) within the stipulated period.

Mr. Ankur Srivastava Company Secretary & Compliance Officer Kanpur Plastipack Limited D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208022 Tel: +91 512 2691113-116 Email: <a href="mailto:secretary@kanplas.com">secretary@kanplas.com</a>	Skyline Financial Services Private Limited Registrar and Share Transfer Agent D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020 Tel: +91-11-40450193-97, 26812682-83 Email id: <a href="mailto:info@skylinertta.com">info@skylinertta.com</a>
---	---

For Kanpur Plastipack Limited

Sd/-  
(Ankur Srivastava)

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kanpur

Date: 03.02.2026

SHREE CEMENT LIMITED

Registered Office: Bangur Nagar, Beawar, Ajmer District, Rajasthan – 305901

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Company has have been lost/misplaced and the holder of the said securities/applicant has/have applied to the Company to issue duplicate certificate.

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation.

Name of Holder	Folio No.	Kind of Security
K KRISHNANAND MENON	SCL900391	EQUITY Rs. 10/-
No. of Securities	Certificate No.	Distinctive Nos.
50	74210	333971 to 334020

Date : 05.02.2026

Place : Trivandrum

K KRISHNANAND MENON  
(Claimant(s))

SIL INVESTMENTS LIMITED

CIN : L17301RJ1934PLC002761

Regd. Office : Pachpahar Road, Bhawanimandi-326502 (Rajasthan) Tel. No.: 07433-222082; Email: [complianceofficer@silinvestments.in](mailto:complianceofficer@silinvestments.in); Website : [www.silinvestments.in](http://www.silinvestments.in)

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND  
CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS  
FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2025

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on 04<sup>th</sup> February, 2026 approved the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2025.

The full financial results of the Company along with the Auditor's Limited Review Report, are available on the Stock Exchanges websites at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and are also posted on the Company's website at [https://www.silinvestments.in/pdfs/Unaudited/UnAud\\_DEC2025.pdf](https://www.silinvestments.in/pdfs/Unaudited/UnAud_DEC2025.pdf) which can be accessed by scanning the Quick Response (QR) code.



Place : Kolkata

Date : 04<sup>th</sup> February, 2026

For SIL INVESTMENTS LIMITED

(C.S. Nopany)  
Chairman

Note : The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015



# अकलेरा में कलाल समाज के 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

पत्रिका patrika.com

अकलेरा. हेत्य क्षत्रिय कलाल समाज द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन बुधवार को निजी रिसोर्ट में हुआ। इसमें समाज के 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः श्रीगणेशजी की स्थापना के साथ हुआ। इसके पश्चात



अकलेरा. सामूहिक विवाह सम्मेलन में स्टेज पर मौजूद दूल्हा और दुल्हन।

## लक्ष्मीनारायण धोबी समाज के अध्यक्ष बने



चौमहला. बरीठा रजक धोबी समाज की बैठक में मौजूद लोग।

चौमहला @ पत्रिका. बसीठा रजक धोबी समाज गंगधारा-चौमहला की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव हुए। इसमें पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण परमार को अध्यक्ष बनाया। साथ ही मुकेश गुजरिया को उपाध्यक्ष, संतोष परमार को कोषाध्यक्ष, राहुल मोरी को सचिव, रवि मालवीय को महामंत्री, दिनेश मोरी को संगठन मंत्री, प्रदीप

परासिया को संयुक्त मंत्री व रमेश चंद्र परमार, शंकरलाल कराड़िया, हीरालाल कोदिया, जगदीश परासिया व कालुलाल मोरी को सलाहकार बनाया। सभी ने समाज के विकास के लिए पूरी निष्ठा समर्पण भाव से काम करने की शपथ ली। समाज के संस्थापक मोतीलाल कोदिया, पूर्व अध्यक्ष दिलीप मोरी सहित कई लोग उपस्थित रहे।

## शबे बरात पर मोमिनों ने की इबादत



डग. शबे बरात के दौरान इबादत करते मोमिन।

डग. नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में शबे बरात का पर्व मोमिनों ने पूरी अकरीदता, इबादत और अमन-चैन की दुआओं के साथ मनाया। मुबारक रात के अक्सर पर घर-घर में मिष्ठान बनाए और अक्सर की नमाज के बाद फातिहा दिलाई। बड़ी संख्या में मोमिन दरगाहों, आस्तानों मुबारक और कब्रिस्तानों में पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों और मरहूमों के लिए फातिहा पढ़ी। इस दौरान फूल,

आगरबत्ती व इत्र पेश कर अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं मांगी। कब्रिस्तानों में देर शाम तक रोशनी, खुशबू और दुआओं का माहौल बना रहा। वहीं मोमिनों ने रात जाग कर मस्जिदों में इबादत की। शबे बरात को रहमत, बरकत और गुनाहों से माफ़ी की रात माना जाता है। इस अक्सर पर मोमिनों ने अल्लाह से मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी।

SUTILE

**सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड**  
सीआईएन नं. : L117301RJ1934PLC002761  
पंजीकृत कार्यालय : पंचपरार रोड, भगवानि-326502 (राज.) टेलीफोन : (07433)222052/54/82  
ई-मेल आईडी : investor.relations@satilejtextiles.com वेबसाइट : www.satilejtextiles.com

**सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो**

सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-P0D/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो केवल उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है जिनके भौतिक शेयरों के ट्रांसफर हेतु अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से अस्वीकृत / वापस कर दिए गए / लंबित रह गए थे।  
जो शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र, ट्रांसफर डीड तथा परिपत्र में उल्लेखित अन्य सभी दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमएफएजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, एबेसी, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विकोली (प), मुंबई - 400083, संपर्क नंबर (+ 91) 8108116767 और ईमेल आईडी : rnt.helpdesk@in.mpm.mulf.com के पते पर जमा करें। यह परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.satilejtextiles.com के "Investors" अनुभाग में उपलब्ध है।  
जो शेयर ट्रांसफर हेतु पुनः जमा किए जाएंगे, उन्हें केवल डीमैट रूप में ही जारी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए शेयरधारक rnt.helpdesk@in.mpm.mulf.com अथवा investor.relations@satilejtextiles.com पर सेवा अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 04 फरवरी, 2026

नगर कांस्टेबल  
कंपनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

**एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड**  
सीआईएन नं. : L117301RJ1934PLC002761  
पंजीकृत कार्यालय : पंचपरार रोड, भगवानि-326502 (राज.) टेलीफोन : (07433)222052/54/82  
ई-मेल आईडी : investor.relations@satilejtextiles.com वेबसाइट : www.satilejtextiles.com

**एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो**

सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-P0D/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक शेयरों के ट्रांसफर एवं डीमैटेरियलाइजेशन के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो केवल उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है जिनके भौतिक शेयरों के ट्रांसफर हेतु अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या अन्य कारणों से अस्वीकृत / वापस कर दिए गए / लंबित रह गए थे।  
जो शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र, ट्रांसफर डीड तथा परिपत्र में उल्लेखित अन्य सभी दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमएफएजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, एबेसी, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विकोली (प), मुंबई - 400083, संपर्क नंबर (+ 91) 8108116767 और ईमेल आईडी : rnt.helpdesk@in.mpm.mulf.com के पते पर जमा करें। यह परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.satilejtextiles.com के "Investors" अनुभाग में उपलब्ध है।  
जो शेयर ट्रांसफर हेतु पुनः जमा किए जाएंगे, उन्हें केवल डीमैट रूप में ही जारी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए शेयरधारक rnt.helpdesk@in.mpm.mulf.com अथवा investor.relations@satilejtextiles.com पर सेवा अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 04 फरवरी, 2026

नगर कांस्टेबल  
कंपनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

**SIL INVESTMENTS LIMITED**  
CIN : L117301RJ1934PLC002761  
Regd. Office : Pachphar Road, Bhawaninandi-326502 (Rajasthan) Tel. No. 07433-222082;  
Email: compliance@sileinvestments.in Website : www.sileinvestments.in

**STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER, 2025**

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on 04<sup>th</sup> February, 2026 approved the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2025.  
The full financial results of the Company along with the Auditor's Limited Review Report, are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and are also posted on the Company's website at [https://www.sileinvestments.in/pdfs/Unaudited/UnAud\\_DEC2025.pdf](https://www.sileinvestments.in/pdfs/Unaudited/UnAud_DEC2025.pdf) which can be accessed by scanning the Quick Response (QR) code.

For SIL INVESTMENTS LIMITED  
(C.S. Nopany)  
Chairman  
Place : Kolkata  
Date : 04<sup>th</sup> February, 2026  
Note : The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(i) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

## राउप्रावि हरिपुरा में पर्यावरण जागरूकता शिविर

# सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ रहा प्रदूषण

पत्रिका patrika.com

झालरापाटन. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा में पर्यावरण जागरूकता शिविर लगा।

अधिकार मित्र भारत मीणा ने बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताते हुए कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में पॉलिथीन के अंधाधुंध उपयोग के कारण पर्यावरण खराब हो रहा है। जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक प्रमुख हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक के दूसरे विकल्प तलाशें, जैसे कागज के पकेट या फिर कपड़े का थैला। क्योंकि प्लास्टिक से जो रसायन निकलता है वह हमारे स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है। इसके साथ ही जमीन की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता को भी खराब करता है। आजकल हम बाजार से सब्जियां प्लास्टिक पाउच में लाते हैं और फिर बची हुई सब्जियों व खाद्य सामग्री को इन्हीं थैलियों में सड़क या गली में इधर-उधर फेंक देते हैं। जिन्हें मवेशी खाकर बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटना ना हो इसके लिए हमें इसके अन्य विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बढ़ते कीटनाशकों के प्रभाव से बचने के लिए हमें कृषि में



झालरापाटन. विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी।



रीछवा. नसीराबाद के पीएमश्री राउमावि में व्याख्यान देते हुए।

कीटनाशक के बजाय जैविक खेती को अपनाना होगा। क्योंकि कीटनाशक के छिड़काव से खेत में रसायनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो कमजोर होती ही है साथी मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण कई सारी खान-पान जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। जिससे कई सारे जानवर पशु पक्षी की प्रजातियां या तो बहुत तेजी से घट रही हैं या कुछ विलुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में हमें इस समस्या से निपटने के लिए कीटनाशक के अति उपयोग को रोकना ही होगा और इसकी जगह

पारंपरिक कृषि अथवा जैविक खेती की ओर लौटना होगा। तभी हम अपने वाली पीढ़ी को एक अच्छी आदर्श कृषि नुमा विरासत सौंप पाएंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। जिससे स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण हो सके। उन्होंने राज्य व्यापी अभियान न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं के सुलभ समाधान के तहत आमजन को स्थाई लोक अदालत के विशेष अभियान सर्वे भी किया। साथ ही बच्चों को बालविवाह, दहेजप्रथम, बाल मजदूरी, कन्या धूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के बारे में जानकारी दी।

# भागवत कथा में उमड़ पड़ी भीड़



आवर @ पत्रिका. क्षेत्र के ग्राम बड़िया लडाका स्थित श्रीकालेश्वर मंदिर प्रांगण में समस्त ग्रामवासियों के जनसहयोग से आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ी। समापन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की महाआरती हुई।

जिसमें सपलीक महाआरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। महाआरती के दौरान पूरा वातावरण "जय श्रीकृष्ण" और "हरि बोल" के जयघोष से गूंज उठा। कथा वाचक गं.पोपाल पुरोहित ने अपने अंतिम उद्बोधन में भागवत कथा के सार को बताते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत मानव जीवन को

धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। समापन अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, महिलाएं, पुरुष एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया।

## खंडिया चौराहे के फुटपाथ पर बैठे दुकानदारों से दुर्घटना का अंदेश

झालावाड़ @ पत्रिका. झालरापाटन से झालावाड़ मार्ग पर खंडिया चौराहे के यहां मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगी दुकानों से यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ ही हमेशा दुर्घटना का अंदेश बना रहता है।



झालरापाटन. खंडिया चौराहा पर सड़क किनारे बैठे दुकानदार।

भी है, जहां पर अक्सर यातायात अलावा जिले के आला अधिकारियों की भी इसी सड़क पर होकर गुजरना

हता है। इसके बावजूद इस दुर्घटना पॉइंट पर किसी का ध्यान नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस सड़क पर होकर छोटे से लेकर बड़े वाहन निकलते हैं। यहां पर ही सभी रास्तों का घुमाव है, जिससे वाहन चालकों को इनके कारण अपने वाहन निकाटने में परेशानी महसूस करना पड़ती है।

पूर्व में भी जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर बैठने वाले इन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ समय बाद यह वापस यहां आकर बैठने लगे हैं।

## भगवान के विमान की शोभायात्रा निकाली



पत्रिका patrika.com

अकलेरा. नगर में राठौर तेलियान पंचायत द्वारा भगवान श्रीलक्ष्मी नारायण एवं श्रीराम-जानकी मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम का आयोजन बाबूलाल राठौर की अध्यक्षता में किया। इस अवसर पर पुलिस चौकी के सामने स्थित समाज के मंदिर से भगवात्रा के विमान की शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा बस स्टैंड अकलेरा से प्रारंभ होकर रामद्वारा चौराहा, भोपाल नाका होते



अकलेरा. शोभायात्रा में मौजूद राठौर तेलियान समाज के लोग

हुए विवेकानंद चौराहे से गुजरती हुई पुनः मंदिर पहुंची, जहां समापन हुआ। शोभायात्रा में समाज के पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे पारंपरिक उत्साह के साथ शामिल हुए। रास्ते भर आतिशबाजी, भजन-कीर्तन व नृत्य

से माहौल भक्तिमय बना रहा। बड़ी संख्या में राठौर समाजजनों ने बह्दकर भाग लिया। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने पर भगवान की विधिवत आरती की एवं प्रसादी का वितरण किया।

## तीसरे दिन हुए क्रिकेट के कई मैच



झालावाड़ @ पत्रिका. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स की राजकीय खेल संकुल में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई मैच हुए। कार्यक्रम संयोजक यश श्रुंगी एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल, परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष हिमांशु तिवारी का प्रोफेसर जितेंद्र वैष्णव, कन्हैया मीणा ने स्वागत किया। कार्यक्रम सह-संयोजक गौरव टेलर एवं दुर्गेश दांगी, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज गोस्वामी, यश गहलोत व पुरूषोत्तम लोधा आदि मौजूद रहे।

## केसरपुरा में 130 जोड़ों ने किया हवन



छोटी सुनेल @ पत्रिका. ग्राम पंचायत उन्हेल के केसरपुरा गांव में देव नारायण भगवान मंदिर देवधाम में चल रहे 108 कुण्डीय विष्णु महायज्ञ में 130 जोड़ों ने हवन किया। सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आयोजन समिति एवं देवधाम के केसरपुरा से जुड़े पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

**राजस्थान सरकार**  
**राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाईटई तह, शाहाबाद जिला बारा (राज.)**  
**बीबीबी विद्यालय**  
दिनांक 02/2/2025  
क्रमांक:- 204  
सर्वप्रथम को सूचित किया जाता है कि राजकीय नाईटई तह, शाहाबाद जिला बारा 6 को जमींदार कर मरवा हटाकर समस्त युधिप्रदात करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।  
मुख्य शर्त - 1. खुली बोली दिनांक 09.02.2026 सोमवार को दोपहर 1.00 पीएम पर विद्यालय परिसर में आयोजित होगी।  
2. बोलीदाता धरोहर राशि 10000 रुपये जमा करना होगा जो बोली में धमा से पायेगा जो कि विद्यालय में दिनांक 08.02.2026 को 12.30 बजे तक जमा करानी है।  
3. सर्वाधिक बोली लागने वाला सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि विद्यालय में अग्रिम जमा करने के बाद ही सप्त दिवस में मरवा विद्यालय से हटाने की अनुमति होगी ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जमान कर ली जायेगी।  
4. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत तिथि परिवर्तन तथा विवाद की स्थिति सर्वाधिकार एसआरएमसी नाईटई के चेयरमैन विस्तृत पूर्ण एवं पत्र का अन्तर्लेखन विद्यालय द्वारा में अग्रिम कर सकते हैं। विद्यालय भवन ध्वस्त करने समय कोई भी कच्चापट्टी हटाने हेतु न्यक्की विनियमों के विद्यालय प्रबंध समिति की नहीं होगी।  
TAN NO:-JDHGS05246D  
Mob No.-7597375848 MAIL-GSSSNATAT@GMAIL.COM  
प्रधानमंत्री  
राजकीय नाईटई  
पं.स. शाहाबाद जिला बारा

**कार्यालय अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, बून्दी**  
प्रथम तन, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक  
गणेश बाग, देवपुरा, बून्दी-323001  
E-mail:adpcsmsa.bnd23@gmail.com

क्रमांक:- जिस/समसा/बून्दी/2025-26/2010 दिनांक - 04/02/2026

**Notice Inviting Bid**  
Bid for "Refreshable Braille Display (RBD)" are inviting from interested bidders up to 10-02-2026 on 12:00 P.M. Other Particulars of the bid may be visited on the <http://sppp.raj.nic.in> of the state.

S.N.	Name of Work	Estimated Cost	NIB No.	UBN No.
01	Refreshable Braille Display (RBD)	1.10	RSE2526A1778	RSE2526GSLB 06656

अति. जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा, बून्दी

**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा**  
महाराष्ट्र भूमिर्षा मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा  
**निविदा सूचना संख्या- 31/2025-26**  
विश्वविद्यालय द्वारा RUSA 2.0 Scheme के अन्तर्गत Supply and Installation of Computers and Printers for various Offices/ Departments of the University हेतु अनुभव की एवं प्रतिष्ठित निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में अनुमानित लागत रु. 272.75 लाख की ई-निविदा दिनांक 24/02/2026 को सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।  
निविदा प्रपत्र एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> और University Website [www.uok.ac.in](http://www.uok.ac.in) पर उपलब्ध है।  
UBN:-UOK2526GLOB00033

कुलसचिव

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा**  
E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244  
क्रमांक:- एफ( ) /कय/निविदा/2025-26/ दिनांक:-  
**Notice Inviting Bid No-65/2025-26**  
Bids for Various Construction Works in Ramgarh Crater Range Kishanganj Total Estimate Value Rs. 25.37 Lacs are invited from interested bidders upto 02:00 PM on 14.02.2026 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> of the State & at our office in office hours.  
NIB Code-FOR2526A3826  
UBN No.-FOR2526WSOB05295

उप वन संरक्षक  
बारा

**कार्यालय नगर पालिका डग, जिला झालावाड़ (राज.)**  
क्रमांक:- न.पा. डग/भूमि/2026/1061 दिनांक 03/02/2026  
-सर्वजनिक सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका डग में सीमान्तगत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण / लीज हस्तांतरण / निर्माण स्वीकृति / अनापति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। (वाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।)

क्र. सं.	नाम/ पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	उप डाक्टर डग, जरिये उपनिर्देशक भवानीभंडी	भूमि खसरा नं. 3704 पठारी नई आबादी, डग	पट्टा फाईल
2	सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डग	भूमि खसरा नं 0 3705/1 नई आबादी पठारी पानी कि टंकी के पास, डग	पट्टा फाईल
3	सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डग	भूमि खसरा नं. 3851 गेब साहब बाबा, पानी कि टंकी के पास, डग	पट्टा फाईल
4	सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डग	भूमि खसरा नं. 519 गंगधार रोड, डग	पट्टा फाईल
5	श्री योगेन्द्र कुमार वेण्णव आ. श्री मोहनदास वेण्णव	बावसार मोहल्ला डग, खसरा नं. 3851	निर्माण स्वीकृति
6	श्री उत्तमचंद जैन आ. श्री कैशरीमल जैन	भवानीभंडी रोड द सन पब्लिक स्कूल के पास डग, खसरा नं. 1485/01	निर्माण स्वीकृति
7	श्रीमति प्रेमबाई पति श्री दिनेश कुमार टेलर	गायत्री मंदिर के पास, डग खसरा नं. 3853	अनापति प्रमाण पत्र
8	श्री राजेन्द्र सिंह आ. श्री देवी सिंह	टोडी मोहल्ला डग, खसरा नं. 3851	अनापति प्रमाण पत्र
9	श्रीमति कमलबाई पति श्री कालुलाल	नीम चोक डग, खसरा नं. 3851	आवासीय पट्टा

अधिकाधिक अधिकारी  
नगर पालिका डग